

7	לְכוּ עִתָּה אֲב	יָגֵלוּ בְּרָאשׁ גְּלוּם	וְרָר מְרוֹחַ סְרוּחִים :	פ
	अब इसलिए	बंधुआई-में-जाएँगे	में-आगे बंधुओं-के	और-हट-जाएगा
	H6258	H1540	H1540	H5493
			H4797	H5628

वे लोग अब अपने बिलौने पर आराम कर रहे हैं। किन्तु उनका अच्छा समय समाप्त होगा। वे बन्दी के रूप में विदेशों में पहुँचाये जाएंगे और वे प्रथम पकड़े जाने वालों में से कुछ होंगे।

8	נִשְׁבַּע אֲדֹנָי יְהוָה בְּנַפְשׁוֹ נָא- יְהוָה	צְבָאוֹת אֱלֹהֵי יְהוָה	מְתָאֵב אֲנֹכִי אֶת-	
	शपथ-खाई आदोनाई यहोवा-ने	एलोहीम यहोवा	घृणा-करता-हूँ मैं	से-
	H0136	H3068	H0853	H0595
			H8374	
	גָּאוֹן יַעֲקֹב וְאֶרְמְנָתָיו שְׁנָאֲתִי וְהִסְגַּרְתִּי עִיר	וּמְלֹאָה: और-भरपूरी-उसकी।	और-महलों-उसके-से	और-सौंप-दूंगा
	H1347	H3290	H0759	H8130
			H5462	H4393

मेरे स्वामी यहोवा ने यह प्रतिज्ञा की थी। उन्होंने अपना नाम सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा लिया और यह प्रतिज्ञा की: "मैं उन बातों से घृणा करता हूँ, जिन पर याकूब को गर्व है। मैं उसकी दृढ़ मीनारों से घृणा करता हूँ। अतः मैं शत्रु को नगर तथा नगर की हर एक चीज लेने दूँगा।"

9	וְהָיָה אִם- יִתְּרוֹ עֲשָׂרָה אֲנָשִׁים בְּבֵית אֶחָד וּמָתוּ:	और-होगा अगर- बच-जाएँ दस मनुष्य में-घर एक और-मर-जाएँगे।
	H1961	H3498
		H0259
		H0376
		H6235

उस समय, किसी घर में यदि दस व्यक्ति जीवित बचेंगे तो वे भी मर जाएंगे।

10	וּנְשָׂאוֹ הַיָּתוּם וְהַיָּתוּם וְהַיָּתוּם	וּמְסָרְפוֹ וְהַיָּתוּם	לְהוֹצִיאָהּ מִן- הַבַּיִת	וְאָמַר
	और-उठाएगा-उसको	चाचा-उसका और-जलाने-वाला-उसका	निकालने-के-लिए	और-कहेगा
	H5375	H1730	H6106	H0559
			H3318	

לֹא	כִּי	חָס	וְאָמַר	אֶפְס	וְאָמַר	עִמָּךְ	הַעוֹד	הַבַּיִת	בֵּירוּכְתִי	לְאִשְׁרָיִךְ
नहीं	क्योंकि	चुप	और-कहेगा	नहीं	और-कहेगा	साथ-तेरे	क्या-अभी	घर-के	में-कोनों	को-जो
H3808		H2013	H0559		H0559		H5750		H3411	

לְהַזְכִּירָהּ	בְּשֵׁם	יְהוָה:
लेना-हे	में-नाम	यहोवा-के।
H2142	H8034	H3068

जब कोई मर जाएगा तब कोई सम्बंधी शव लेने आएगा, जिससे वह उसे बाहर ले जा सके और जला सके। सम्बंधी घर में से हड्डियाँ लेने आयेगा। लोग किसी भी उस व्यक्ति से जो घर के भीतर छिपा होगा, पूछेंगे, "क्या तुम्हारे पास कोई अन्य शव है?" वह व्यक्ति उत्तर देगा, "नहीं...!" तब व्यक्ति के सम्बंधी कहेंगे, "चुप! हमें यहोवा का नाम नहीं लेना चाहिये।"

11	כִּי- הִנֵּה יְהוָה מְצַוֶּה יְהוָה	וְהָיָה אִם- יִתְּרוֹ עֲשָׂרָה אֲנָשִׁים	בְּבֵית אֶחָד וּמָתוּ:	וְהָיָה אִם- יִתְּרוֹ עֲשָׂרָה אֲנָשִׁים					
	क्योंकि- देखो यहोवा	और-घर टुकड़े-टुकड़े	बड़े-को घर	और-मारेगा	आज्ञा-देता-है	यहोवा	देखो	क्योंकि-	
	H2009	H3068	H6680	H5221	H3068	H2009	H1233		

देखो, परमेश्वर यहोवा आदेश देगा और विशाल महल टुकड़े—टुकड़े किये जायेंगे और छोटे घर छोटे—छोटे टुकड़ों में तोड़े जाएंगे।

12	וְהָיָה אִם- יִתְּרוֹ עֲשָׂרָה אֲנָשִׁים	בְּבֵית אֶחָד וּמָתוּ:	וְהָיָה אִם- יִתְּרוֹ עֲשָׂרָה אֲנָשִׁים						
	और-मारेगा	आज्ञा-देता-है	यहोवा	देखो	क्योंकि-				
	H5221	H6680	H3068	H2009	H1233				

וְהָיָה אִם- יִתְּרוֹ עֲשָׂרָה אֲנָשִׁים	בְּבֵית אֶחָד וּמָתוּ:	וְהָיָה אִם- יִתְּרוֹ עֲשָׂרָה אֲנָשִׁים							
और-मारेगा	आज्ञा-देता-है	यहोवा	देखो	क्योंकि-					
H5221	H6680	H3068	H2009	H1233					

क्या घोड़े शिलाखंडों पर दौड़ते हैं नहीं! क्या लोग समुद्र को बैलों से जोत सकते हैं नहीं। तो भी तुम हर चीज को उलट—पलट देते हो। तुम अच्छाई और न्याय को जहर में बदल देते हो।

13	וְהָיָה אִם- יִתְּרוֹ עֲשָׂרָה אֲנָשִׁים	בְּבֵית אֶחָד וּמָתוּ:	וְהָיָה אִם- יִתְּרוֹ עֲשָׂרָה אֲנָשִׁים						
	और-मारेगा	आज्ञा-देता-है	यहोवा	देखो	क्योंकि-				
	H5221	H6680	H3068	H2009	H1233				

तुम लो—देवर में प्रसन्न हो, तुम कहते हो, “हमने करनैम को अपनी शक्ति से जीता है।”

גְּוֵי הַצְּבָאוֹת אֱלֹהֵי יְהוָה יִשְׂרָאֵל נָא־ בֵּית עַלְיֶכֶם מְקִיִּם הֲנִי כִי
जाति सेनाओं-का एलोहीम यहोवा वाणी- इस्राएल-के हे-घर पर-तुम खड़ा-कर-रहा-हूँ देखो-मैं क्योंकि

14

[H0430](#)

[H3068](#)

[H5002](#)

[H3478](#)

[H2009](#)

ס נַחַל הָעֲרָבָה : עַד- חַמַּת מִלְבּוֹא אֶתְכֶם וּלְחַצּוֹ
— अराबा-के। नाले तक- हमात-के से-प्रवेश तुम्हें और-सताएगी

[H6160](#)

[H5704](#)

[H2574](#)

[H0935](#)

[H0853](#)

[H3905](#)

“किन्तु इस्राएल, मैं तुम्हारे विरूद्ध एक राष्ट्र को भेजूँगा। वह राष्ट्र तुम्हारे सारे देश को, लेबो—हमात से लेकर अराबा नाले तक विपत्ति में डालेंगे।”
सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने वह सब कहा।